



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 भाद्र 1945 (श10)
(सं0 पटना 758) पटना, बृहस्पतिवार, 21 सितम्बर 2023

शिक्षा विभाग

अधिसूचना
20 सितम्बर 2023

सं० 11/नियमा-01-02/2020-2133—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के “परन्तुक” के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल के द्वारा राज्य के माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवाशर्तों को विनिश्चित करने हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या-1338 दिनांक-18.08.2021 द्वारा बनायी गयी “बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2021 में निम्नलिखित संशोधन करते हुए नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

- (क) यह नियमावली “बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली 2023” कही जायेगी।
- (ख) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (ग) यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता से संबंधित नियम-6(v) के उप नियम (क) एवं (ग) को निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है :-

- (क) राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 08 वर्ष की लगातार सेवा।

(ग) राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 04 वर्ष की लगातार सेवा।”

3. नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित नियम-8(iii) से 8(v) को निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“आयोग द्वारा परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रारूप प्रशासी विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जायेगा।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के०के० पाठक,
अपर मुख्य सचिव।

The 20th September 2023

No:11/Rule-01-02/2020-2133--*In exercise of the powers conferred under the “Proviso” to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar hereby makes the following Rules for amendment of “Bihar State Senior Secondary School Headmaster (Appointment, Transfer, Disciplinary Proceedings and Service Conditions) Rules 2021, made vide the departmental notification number-1338 dated 18.08.2021 for appointment to the post of Headmasters and determining their service conditions in senior secondary schools of the State established in panchayats not having secondary schools:*

1. Short title, extent and commencement: -

- These Rules shall be called “Bihar State Senior Secondary School Headmaster (Appointment Transfer, Disciplinary Proceedings and Service Conditions) (Amendment) Rules, 2023”.
- It shall extend throughout the State of Bihar.
- This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Sub-rules (a) and (c) of Rule 6 (V) relating to essential qualification for appointment to the post of Headmaster, Senior Secondary School are substituted as follows:-

- “(a) Minimum 08 years of continuous service on the post of Secondary Teacher in the school of the State Government under the Panchayati Raj and Municipal Body Institution.
- “(c) Minimum 04 years of continuous service on the post of Higher Secondary Teacher in the school of the State Government under the Panchayati Raj and Municipal Body Institution.”

3. Rules- 8(iii) to 8(v) relating to the procedure of appointment are substituted as follows:-

“The syllabus and exam format for the examination shall be decided by the Commission in consultation with the Administrative Department.”

By order of the Governor of Bihar,
K. K. Pathak,
Additional Chief Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 758-571+3000-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>